

**कक्षा–XII (Commerce)**  
**लेखा शास्त्रा (Accountancy)**

समय : 3 घंटे + 15 मिनट (अतिरिक्त)

पूर्णांक : 100

Time : 3 Hrs. + 15 Minute (Extra)]

[Total Marks ; 100]

सामान्य निर्देश (General Instructions) :



There is *No negative marking* for any wrong answer

There are two sections in the question paper

**खण्ड–I (Section-I)**


**वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)**

कुल अंक (Total Marks)	–	50
कुल प्रश्नों की संख्या (Total No. of Questions)	–	50

**खण्ड–II (Section-II)**

**गैर-वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Non-Objective Questions)**


कुल अंक (Total Marks)	–	50
लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)	–	15 (प्रत्येक 2 अंक)
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)	–	04 (प्रत्येक 5 अंक)



(There are some internal options in some of the long answer type questions. In such questions you have to answer any one of the given alternatives.)




(Answer should be in your own language as far as practicable)



(Use of any electronic gadgets like Calculator, Cell Phone, Pager is prohibited during exam.)

(2)



(The answer of objective question is to be given on supplied OMR sheet by completely darkening the appropriate answer option.

For example if answer is (c). You should darken it as shown by blue/black pen.

(a) (b) (●) (d)

## MODEL PAPER (प्रारूप पत्रा)

### SECTION (खण्ड) – I

### Objective Questions (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Time : 1 Hours 10 Minutes

[Total Marks ; 50]

समय : 1 घंटा 10 मिनट

पूर्णांक : 50

In Section I, there are 50 objective type questions, to be answered on OMR Sheet. Question Nos. 1 to 50 carry 1 mark each. Answer all the questions.

खंड-I में सभी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर दें। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

I. In Question Nos. 1 to 50, each question has four alternatives, of which only one is correct. You have to choose the correct alternative :

प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है। सही विकल्प को चिन्हित करें :

50x1=50

1. Property received as a result of the will of the deceased person is called :

- (a) Legacy (b) Honorarium  
(c) Donation (d) Subscription

मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति को कहा जाता है:

- (a) रिक्थ (b) मानदेय

(3)

(c) दान (d) चन्दा

2. Payment of Honorarium to secretary is treated as :

(a) Capital expenditure (b) Revenue expenditure  
(c) Cash expenses (d) Deferred Revenue expenditure

सचिव को मानदेय का भुगतान है:

(a) पूँजीगत व्यय (b) आयगत व्यय  
(c) नगद व्यय (d) स्थगित आयगत व्यय

3. In the absence of partnership deed, the partner will be allowed interest on the amount advanced to the firm at :

(a) 5% (b) 6%  
(c) 8% (d) 9%

साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि का ब्याज दिया जायेगा:

(a) 5% (b) 6%  
(c) 8% (d) 9%

4. In the absence of partnership deed, interest on capital will be given to the partners at :

(a) 5% (b) 6%  
(c) 8% (d) None of these

साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूँजी पर ब्याज दिया जायेगा:

(a) 5% (b) 6%  
(c) 8% (d) इनमें से कोई नहीं

5. Current Account is a :

(a) Personal Account (b) Real Account  
(c) Nominal Account (d) None of these

चालू खाता है:

(a) व्यक्तिगत खाता (b) वास्तविक खाता  
(c) नाममात्र खाता (d) इनमें से कोई नहीं

6. The interest on partners' drawings is debited to :

(4)

- (a) Partners Capital A/c      (b) Profit and Loss A/c  
(c) Drawing A/c              (d) Revaluation A/c

साझेदारों के आहरणों पर ब्याज नाम किया जाता है:

- (a) साझेदारों का पूँजी खाता में  
(b) लाभ-हानि खाता में  
(c) आहरण खाता में  
(d) पुनर्मूल्यांकन खाता में

7. Interest payable on the capitals of the partners is charged to:

- (a) Profit and Loss A/c  
(b) Realisation A/c  
(c) Profit and Loss Appropriation A/c  
(d) Revaluation A/c

साझेदारों की पूँजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है:

- (a) लाभ-हानि खाता में  
(b) वसूली खाता में  
(c) लाभ-हानि नियोजन खाता में  
(d) पुनर्मूल्यांकन खाता में

8. The excess of actual profit over the normal profit is called :

- (a) super profit                      (b) fixed profit  
(c) abnormal profit                  (d) normal profit

सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है:

- (a) अधिलाभ                          (b) निश्चित लाभ  
(c) असामान्य लाभ                  (d) सामान्य लाभ

9. A and B are partners sharing profit in the ratio 3 : 1. They admit C for  $\frac{1}{4}$  share in future profits. The new profit sharing ratio will be :

- (a)  $A \frac{9}{16} : B \frac{3}{16} : C \frac{4}{16}$               (b)  $A \frac{8}{16} : B \frac{4}{16} : C \frac{4}{16}$   
(c)  $A \frac{10}{16} : B \frac{2}{16} : C \frac{4}{16}$               (d)  $A \frac{8}{16} : B \frac{9}{16} : C \frac{10}{16}$

(5)

A और B 3 : 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे C को भविष्य के लाभ में  $\frac{1}{4}$  हिस्सा देकर प्रवेश कराते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा:

- (a)  $A \frac{9}{16} : B \frac{3}{16} : C \frac{4}{16}$                       (b)  $A \frac{8}{16} : B \frac{4}{16} : C \frac{4}{16}$   
(c)  $A \frac{10}{16} : B \frac{2}{16} : C \frac{4}{16}$                       (d)  $A \frac{8}{16} : B \frac{9}{16} : C \frac{10}{16}$

10. X and Y share profits in the ratio of 3 : 2. Z was admitted as a partner who gets  $\frac{1}{5}$  share. Z acquires  $\frac{3}{20}$  from X and  $\frac{1}{20}$  from Y. The new profit sharing ratio will be :

- (a) 9 : 7 : 4                                      (b) 8 : 8 : 4  
(c) 6 : 10 : 4                                    (d) 10 : 6 : 4

X और Y 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। Z को  $\frac{1}{5}$  भाग के लिए साझेदार बनाया गया। Z X से  $\frac{3}{20}$  लेता है और Y से  $\frac{1}{20}$  लेता है, तो नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा :

- (a) 9 : 7 : 4                                      (b) 8 : 8 : 4  
(c) 6 : 10 : 4                                    (d) 10 : 6 : 4

11. A and B share Profit and Loss in the ratio 3 : 1. C is admitted into partnership for  $\frac{1}{4}$  share. The sacrificing ratio A and B is :

- (a) equal    (b) 3 : 1  
(c) 2 : 1    (d) 3 : 2

A और B 3 : 1 के अनुपात में लाभों और हानियों को बाँटते हैं। C को  $\frac{1}{4}$  हिस्सा के लिये साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। A और B का त्याग अनुपात है:

- (a) समान    (b) 3 : 1  
(c) 2 : 1    (d) 3 : 2

(6)

12. Excess of the credit side over debit side in Revaluation A/c is:

- (a) Profit (b) Loss  
(c) Gain (d) Expense

पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है:

- (a) लाभ (b) हानि  
(c) प्राप्ति (d) व्यय

13. Abhishek, Rajat and Vivek are partners sharing profits in the ratio of 5 : 3 : 2. If Vivek retires, the new profit sharing ratio between Abhishek and Rajat will be :

- (a) 3 : 2 (b) 5 : 3  
(c) 5 : 2 (d) None of these

अभिषेक, रजत और विवेक 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभों को बाँटते हुए साझेदार हैं। यदि विवेक अवकाश ग्रहण करता है, तो अभिषेक और रजत के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात होगा:

- (a) 3 : 2 (b) 5 : 3  
(c) 5 : 2 (d) इनमें से कोई नहीं

14. On retirement of the partner, the retiring Partner's Capital A/c will be credited with :

- (a) his/her share of goodwill (b) goodwill of the firm  
(c) shares of goodwill of remaining partners  
(d) None of these

किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूँजी खाता को जमा किया जायेगा:

- (a) उसकी/उसके ख्याति के हिस्से से  
(b) फर्म की ख्याति से  
(c) शेष साझेदारों की ख्याति के हिस्से से  
(d) इनमें से कोई नहीं

15. X, Y and Z share profits in the ratio of  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  and  $\frac{1}{6}$ . Z dies. New ratio of X and Y will be :

(7)

- (a) 3 : 2 (b) 2 : 3  
(c) 2 : 1 (d) None of these

X, Y और A  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  और  $\frac{1}{6}$  के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। Z की मृत्यु हो जाती है। X और Y का नया अनुपात होगा :

- (a) 3 : 2 (b) 2 : 3  
(c) 2 : 1 (d) इनमें से कोई नहीं

16. Relisation Account is a :

- (a) Personal Account (b) Nominal Account  
(c) Real Account (d) None of these

वसूली खाता है:

- (a) व्यक्तिगत खाता (b) नाममात्र खाता  
(c) वास्तविक खाता (d) इनमें से कोई नहीं

17. Expenses on dissolution of a firm is called :

- (a) Realisation expense (b) Legal expense  
(c) Loss expense (d) None of these

फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं :

- (a) वसूली व्यय (b) कानूनी व्यय  
(c) हानिगत व्यय (d) इनमें से कोई नहीं

18. The excess of actual profit over the normal profits is called :

- (a) Super profits (b) Fixed profits  
(c) Abnormal profits (d) None of these

सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है:

- (a) अधिलाभ (b) निश्चित लाभ  
(c) असामान्य लाभ (d) इनमें से कोई नहीं

19. When the new partner pays for goodwill in cash, the amount should be debited in the firm's books to :

(8)

- (a) Goodwill Account (b) Cash Account  
(c) Capital Account of new partner (d) None of these

जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है, तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट करना चाहिए:

- (a) ख्याति खाता में (b) रोकड़ खाता में  
(c) नए साझेदार के पूँजी खाता में (d) इनमें से कोई नहीं

20. Rohit and Rohan share profits in the ratio of 3 : 2. Rohini was admitted as a partner who gets  $\frac{1}{5}$  share. If Rohini acquires  $\frac{3}{20}$  from Rohit and  $\frac{1}{20}$  from Rohan, new profits sharing ratio would be :

- (a) 9 : 7 : 4 (b) 8 : 8 : 4  
(c) 6 : 10 : 4 (d) None of these

रोहित और रोहन 3 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। रोहिणी को साझेदार के रूप में अंश दिया गया था, जो  $\frac{1}{5}$  भाग पाते हैं। यदि रोहिणी  $\frac{3}{20}$  रोहित से ले और रोहन से  $\frac{1}{20}$  ले तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :

- (a) 9 : 7 : 4 (b) 8 : 8 : 4  
(c) 6 : 10 : 4 (d) इनमें से कोई नहीं

21. At the time of admission of a partner, undistributed profits appearing in the Balance Sheet of the old firm is transferred to the Capital Account of :

- (a) old partners in old profit & loss sharing ratio  
(b) old partners in new profit & loss sharing ratio  
(c) all the partners in the new profit & loss sharing ratio  
(d) None of these.

किसी साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी फर्म के आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित अविभाजित लाभ को पूँजी खाता में हस्तान्तरित किया जाता है:

- (a) पुराने साझेदारों को पुराने लाभ—हानि विभाजन अनुपात में  
(b) पुराने साझेदारों को नये लाभ—हानि विभाजन अनुपात में  
(c) सभी साझेदारों को नये लाभ—हानि विभाजन अनुपात में  
(d) इनमें से कोई नहीं



22. Decrease in the value of fixed assets is termed as :

- (a) Depreciation (b) Loss  
(c) Profit (d) Expenses

स्थायी सम्पत्तियों के मूल्य में कभी कहलाती है:-

- (a) ह्रास (b) हानि  
(c) लाभ (d) व्यय

23. At the time of dissolution of partnership firm, Profit & Loss Account shown in the assets side of the Balance Sheet is transferred to

- (a) Realisation Account (b) Cash Account  
(c) Partners' Capital Accounts (d) Bank Account

साझेदारी फर्म के समापन के समय आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में दिखाए गए लाभ-हानि खाते को हस्तांतरित किया जाता है:

- (a) वसूली खाते में (b) रोकड़ खातों में  
(c) साझेदारों के पूंजी खाते में (d) बैंक खाता में

24. At the time of dissolution of partnership firm, the 'Bills Payable' shown in the liabilities side of the Balance Sheet is transferred to :

- (a) Partners' Capital Accounts (b) Realisation Account  
(c) Cash Account (d) Profit & Loss Account

साझेदारी फर्म के समापन पर आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में प्रदर्शित देय विपत्र को हस्तान्तरित करते हैं :

- (a) साझेदारों के पूंजी खाते में (b) वसूली खाते में  
(c) रोकड़ खाते में (d) लाभ-हानि खाता में

25. On dissolution of a firm, a partner paid Rs. 1,000 for realisation expenses. Which account will be debited ?

- (a) Cash Account (b) Realisation Account  
(c) Partners' Capital Account (d) Profit & Loss Account

एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार रु० 1,000 समापन व्ययों का भुगतान कर दिया। कौन-सा खात डेबिट होगा ?

- (a) रोकड़ खाता (b) वसूली खाता  
(c) साझेदार का पूंजी खाता (d) लाभ-हानि खाता में

26. On taking responsibility of payment of realisation expenses by a partner, the account credited will be :

- (a) Realisation Account (b) Cash Account  
(c) Partners' Capital Accounts (d) None of these

साझेदारी द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा :

- (a) वसूली खाते में (b) रोकड़ खाते में  
(c) साझेदारों के पूंजी खाते में (d) लाभ—हानि खाता में

27. When realisation expenses are paid by the firm on behalf of a partner, such expenses are debited to :

- (a) Realisation Account (b) Partners' Capital Accounts  
(c) Partner's Loan Account (d) None of these

जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है :

- (a) वसूली खाते में (b) साझेदारों के पूंजी खाते में  
(c) साझेदारों के ऋण खाते में (d) इनमें से कोई नहीं

28. On taking responsibility of payment of liability of Rs. 1,00,000 by a partner, the account credited will be :

- (a) Realisation Account (b) Cash Account  
(c) Partners' Capital Accounts (d) None of these

साझेदार द्वारा 1,00,000 ₹ के दायित्व के भुगतान का दायित्व लेने पर खाता क्रेडिट किया जाएगा :

- (a) वसूली खाते में (b) रोकड़ खाता  
(c) साझेदारों के पूंजी खाते में (d) इनमें से कोई नहीं

29. Cash balance shown in the Balance Sheet is shown on dissolution of firm in:

- (a) Realisation Account (b) Cash Account  
(c) Capital Accounts (d) Profit & Loss A/c

आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन के समय दिखाते हैं :

- (a) वसूली खाते में (b) रोकड़ खाते में  
(c) पूंजी खाते में (d) लाभ—हानि खाते में

30. Premium received on issue of shares are shown under the head in the Balance Sheet :

- (a) Reserve and Surplus
- (b) Current Liabilities and Provisions
- (c) Share Capital
- (d) Contingent Liabilities

अ"गो के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठा के शीर्षक में दिखाया जाता है :

- (a) संचय और आधिक्य
- (b) चालू दायित्व और प्रावधान
- (c) अ"ग पूंजी
- (d) आकश्मिक दायित्व

31. Interest on calls-in-advance is paid at the rate of :

- (a) 8% p.a
- (b) 6% p.a
- (c) 5% p.a
- (d) None of these

अग्रिम याचना पर ब्याज के भुगतान की दर है :

- (a) 8% प्रतिवर्ष
- (b) 6% प्रतिवर्ष
- (c) 5% प्रतिवर्ष
- (d) इनमें से कोई नहीं

32. Which one of the following is the registered capital of the company ?

- (a) Paid-up capital
- (b) Uncalled capital
- (c) Authorised capital
- (d) Issued capital

इनमें से कम्पनी की पंजीकृत पूंजी कौन-सी है ?

- (a) प्रदत्त पूंजी
- (b) अयाचित पूंजी
- (c) अधिकृत पूंजी
- (d) निर्गमित पूंजी

33. Dividends are usually paid on :

- (a) Authorised Capital
- (b) Issued Capital
- (c) Called-up Capital
- (d) Paid-up Capital

लाभा"ग सामान्यतः दिया जाता है :

- (a) अधिकृत पूंजी
- (b) निर्गमित पूंजी
- (c) माँगी गई पूंजी पर
- (d) प्रदत्त पूंजी

34. The term financial statements include :

- (a) Profit & Loss Account
- (b) Profit & Loss Account and Balance Sheet
- (c) Profit & Loss Appropriation A/c

(d) (a) and (b) both

वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है :

- (a) लाभ-हानि खाता  
 (b) लाभ-हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा  
 (c) लाभ-हानि नियोजन खाता  
 (d) (a) और (b) दोनों

35. The term current assets do not include :

- (a) Stock (b) Debtors  
 (c) Car (d) None of these

चालू सम्पत्ति में शामिल नहीं है :

- (a) रहतिया (b) देनदार  
 (c) कार (d) इनमें से कोई नहीं

36. Balance Sheet is a :

- (a) Statement (b) Account  
 (c) Both (d) None of these

आर्थिक चिट्ठा है :

- (a) विवरण (b) खाता  
 (c) दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

37. The most commonly used tools for financial analysis are :

- (a) Horizontal analysis (b) Vertical analysis  
 (c) Ratio analysis (d) All the above

वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन हैं :

- (a) क्षैतिज विश्लेषण (b) लम्बवत् विश्लेषण  
 (c) अनुपात विश्लेषण (d) उपरोक्त सभी

38. An Annual Report is issued by a company to its :

- (a) Directors (b) Auditors  
 (c) Shareholders (d) Management

कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन को निर्गमित किया जाता है :

- (a) संचालकों के लिए (b) अंकुशकों के लिए  
 (c) अधिधारकों के लिए (d) प्रबन्ध के लिए

39. Balance sheet provides informations about financial position of the

enterprise :

- (a) At a point of time (b) Over a period of time  
(c) For a period of time (d) None of these

संतुलन-पत्र उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है :

- (a) दी गयी वि"ोष अवधि पर (b) वि"ोष अवधि के दौरान  
(c) वि"ोष अवधि के लिए (d) इनमें से कोई नहीं

40. The ideal Current Ratio is :

आदर्"ि चालू अनुपात है :

- (a) 2 : 1 (b) 1 : 2  
(c) 3 : 2 (d) 3 : 4

41. The ideal Acid Test Ratio is :

आदर्"ितम अम्ल परीक्षण अनुपात है :

- (a) 1 : 1 (b) 1 : 2  
(c) 2 : 1 (d) 2 : 3

42. The ideal Debt Equity Ratio is :

आदर्"ितम ऋण समता अनुपात है :

- (a) 1 : 1 (b) 1 : 2  
(c) 2 : 1 (d) 3 : 2

43. Stock Turnover Ratio is :

- (a) Liquidity Ratio (b) Profitability Ratio  
(c) Activity Ratio (d) None of these

स्कन्ध आवर्त अनुपात है :

- (a) तरलता अनुपात (b) लाभदायकता अनुपात  
(c) क्रिया"ीलता अनुपात (d) इनमें से कोई नहीं

44. Profitability Ratio is generally shown in :

- (a) Percentage (b) Simple Ratio  
(c) Times (d) Equation

लाभदायकता अनुपात को सामान्यतया दर्"िया जाता है :

- (a) प्रतिशत में (b) साधारण अनुपात में  
(c) गुणा में (d) समीकरण में

45. Cash flow statement is prepared from :

- (a) Balance Sheet (b) Profit & Loss Account  
(c) Additional Informations (d) All the above

रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है :

- (a) आर्थिक चिट्ठा (b) लाभ—हानि खाता  
(c) अतिरिक्त सूचनाएँ (d) उपर्युक्त सभी

46. Which of the following is not a cash inflow ?

- (a) Decrease in Debtors (b) Issue of shares  
(c) Decrease in Creditors (d) Sales of fixed assets

निम्नलिखित में से कौन—सा रोकड़ अन्तर्वाह नहीं है ?

- (a) देनदारों में कमी (b) अंशों का निर्गमन  
(c) लेनदारों में कमी (d) स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री

47. Which of the following is not a cash outflow ?

- (a) Increase in Creditors (b) Increase in Debtors  
(c) Increase in stock (d) Increase in prepaid expenses

निम्नलिखित में से कौन—सा रोकड़ बहिवाह नहीं है ?

- (a) लेनदारों में वृद्धि (b) देनदारों में वृद्धि  
(c) रहतिया में वृद्धि (d) पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि

48. Cash Flow Statement is based upon :

- (a) Cash basis of accounting (b) Accrual basis of accounting  
(c) Accounting Equation (d) None of these

रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है :

- (a) लेखांकन के रोकड़ के आधार पर (b) लेखांकन के उपार्जन के आधार पर  
(c) लेखांकन समीकरण (d) इनमें से किसी आधार पर नहीं

49. Which of the following is not the source of cash ?

- (a) Purchase of Fixed Assets (b) Funds from Operation  
(c) Issue of Debentures (d) Sale of Fixed Assets

निम्नलिखित में से कौन—सा रोकड़ स्रोत नहीं है ?

- (a) स्थायी सम्पत्तियों का क्रय (b) संचालन स कोष  
(c) ऋणपत्रों का निर्गमन (d) स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री

50. Cash sales is a :

- (a) Operating activities (b) Investing activities  
(c) Financing activities (d) None of these

नगद बिक्री है :

- (a) परिचालन क्रियाएँ (b) विनियोजन क्रियाएँ  
(c) वित्तीय क्रियाएँ (d) इनमें से कोई नहीं

## Section – II (Non – Objective Type)

### खण्ड– II (गैर–वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

समय : 2 घंटा 05 मिनट

पूर्णांक : 50

Time : 2 Hours 05 Minutes

[Total Marks : 50]

लघु उत्तरीय प्रश्न : (Short Answer type questions) :

Instruction : Question Nos. 1 to 22 are Short Answer Type Questions. Each Question carries 2 marks. Answer any 15 questions.

निर्देश : प्रश्न संख्या 1 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें।

15x2=30

- What is realisation account ?  
वसूली खाता क्या है ?
- What is meant by dissolution of a firm ?  
फर्म के विघटन से क्या आ"ाय है ?
- What is meant by giving guarantee of profit to a partner ?  
किसी साझेदार को लाभ की गारण्टी देने का क्या अर्थ है?
- What is partnership deed ?  
साझेदारी संलेख क्या है?
- What is Receipts and Payments Account ?  
प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है ?
- What do you mean by analysis of financial statement ?  
वित्तीय विवरण के विप्लेषण से आप क्या समझते हैं ?
- Sonu Ltd. has a current ratio 3 : 1. If its stock is Rs. 40,000 and total current liabilities are Rs. 75000, find out its quick ratio.  
सोनू लि. के चालू अनुपात 3 : 1 है। यदि इसका रहतिया 40,000 रूपये और कल

चालू दायित्व 75,000 रुपये हैं, तो तरल अनुपात ज्ञात करें।

8. What is common-size statement ?  
समान आकार के विवरण क्या है ?
9. State the features of Income and Expenditure Account.  
आय-व्यय खाते की मुख्य विशेषतायें बतायें।
10. What is the need for valuation of goodwill ?  
ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है ?
11. Why Revaluation Account is prepared on admission of a partner ?  
सझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों तैयार किया जाता है ?
12. Distinguish between sacrifice ratio and gaining ratio.  
त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में अंतर बतायें।
13. What are the modes of dissolution of partnership firm ?  
सझेदारी फर्म के विघटन की रीतियाँ कौन-सी हैं ?
14. Explain the features of a company.  
कम्पनी की विशेषतायें बतायें।
15. What is Reserve capital ?  
संचित पूंजी क्या है ?
16. What is meant by over-subscription of shares ?  
अंगों के अधि-अभिदान से आप क्या समझते हैं ?
17. Define forfeitures of shares.  
अंगों की जब्ती को परिभाषित कीजिए।
18. What is a debenture ?  
ऋणपत्र क्या है ?
19. What do you mean by Redemption of debentures ?  
ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं ?
20. State the limitations of Financial Statement.



वित्तीय विवरण की सीमाओं को बतायें।

21. What do you mean by Ratio Analysis ?

अनुपात विप्लेषण से आप क्या समझते हैं ?

22. What are the objective of preparing cash flow statement ?

रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने के उद्देश्य क्या है ?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :—**

**Long answer type questions :—**

**Instruction : Question Nos. 23 to 26 are Long Answer Type Questions. Each question carries 5 marks. Answer all questions.**

**निर्देश : प्रश्न संख्या 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दें।**

**4x5=20**

23. M and N were partners sharing profits in the ratio of 3 : 2 on the date of dissolution their capitals were M : Rs. 7650, N : Rs. 4300. The creditors amounted to Rs. 27500. The balance of cash was Rs. 750. The assets realised Rs. 25,430. The expenses on dissolution were Rs. 1540. Close the books of the firm. (2 + 2 + 1 = 5)

M एवं N साझेदार थे और लाभों को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करते थे। विघटन के दिन उनकी पूँजी थी— M : ₹ 7650, N : ₹ 4300 लेनदारों की राशि ₹ 27500 थी। रोकड़ का शेष ₹ 750 था। सम्पतियों से ₹ 25430 की वसूली हुई। विघटन पर ₹ 1540 व्यय हुए। फर्म की पुस्तकें बन्द कीजिए।

**OR/अथवा**

**Under what circumstances can a partnership firm be dissolved ?**

किन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन किया जा सकता है ?

24. The Directors of a company decided to forfeit 5,000 shares of Rs. 100 per share on which call money was Rs. 80. The bearer of these shares did not pay Rs. 30 per share on first call and Rs. 20 per share on final call. Make Journal entry for forfeiture of the shares.

एक कम्पनी के संचालकों ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 5,000 अंशों को जिस पर 80 रुपये याचना की गयी थी, जब्त कर लेने का निर्णय किया। इन अंशों का धारक प्रथम

(18)

याचना पर 30 रूपये प्रति अंश और अन्तिम याचना पर 20 रूपये प्रति अंश का भुगतान नहीं किया। अंशों की जब्ती का रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए।

OR/अथवा

Explain the tools of analysis of financial statements.

वित्तीय विवरणों के वि"लेषण के उपकरणों का वि"लेषण किजिए।

25. The following is the position of current assets and current liabilities of Vijay

Ltd :

5

<i>Particulars</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
	<i>Rs.</i>	<i>Rs.</i>
Creditors	20,000	15,000
Debtors	30,000	20,000
Bill Receivable	18,000	29,000
Prepaid Insurance	2,000	5,000

The company has incurred a loss of Rs. 6,000 during the year. Calculate cash from operating activities.

विजय लि. की चालू सम्पतियों तथा चालू दायित्वों की स्थिति निम्नलिखित है:

<b>विवरण</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>रु.</b>	<b>रु.</b>
लेनदार	20,000	15,000
देनदार	30,000	20,000
प्राप्य बिल	18,000	29,000
पूर्वदत्त बीमा	2,000	5,000

वर्ष के दौरान कम्पनी को 6,000 रूपये की हानि हुई। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना कीजिए।

OR/अथवा

Discuss the limitations of cash flow statement.

रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाओं को बताएँ।

26. A and B are partners sharing profits in the ratio of 7 : 8. C was admitted in

(19)

the firm for  $1/6^{\text{th}}$  share who paid Rs. 1,80,000 as capital and Rs. 45,000 as premium in cash. At the time of Admission General reserve amounting to Rs. 45,000 and profit & loss a/c amounting to Rs. 24,000 appeared on the liabilities side of the Balance Sheet. Show necessary journal entries to record the above transactions.

A और B कामों को 7 : 8 के अनुपात में बाँटते हुए साझेदार हैं। C को  $1/6$  हिस्से के लिये फर्म में शामिल किया गया जिसने ₹ 1,80,000 पूंजी के रूप में और ₹ 45,000 प्रीमियम के रूप में नकद दिया। प्रवेश के समय स्थिति विवरण के दायित्व भाग में सचय ₹ 45,000 एवं लाभ-हानि खाता ₹ 24,000 दर्शा रहा था। उपर्युक्त लेन-देनों को लेखबद्ध करने के लिये आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दिखाइये।

OR/अथवा

Explain the procedure of determining the amount payable to a retiring partner when he leaves the firm.

एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के निर्धारण की रीति की व्याख्या करें।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर (Answer of objective questions) :-

1. (a)	14. (a)	27. (b)	40. (a)
2. (b)	15. (a)	28. (c)	41. (a)
3. (b)	16. (b)	29. (b)	42. (a)
4. (d)	17. (a)	30. (a)	43. (c)
5. (a)	18. (a)	31. (b)	44. (a)
6. (a)	19. (b)	32. (c)	45. (d)
7. (c)	20. (a)	33. (d)	46. (c)
8. (a)	21. (a)	34. (b)	47. (a)
9. (a)	22. (a)	35. (c)	48. (a)
10. (a)	23. (c)	36. (a)	49. (a)
11. (b)	24. (b)	37. (d)	50. (a)
12. (a)	25. (b)	38. (c)	
13. (b)	26. (c)	39. (a)	

## CHAPTERWISE DISTRIBUTION OF MARKS

Unit	Topic	Total Allotted Marks	Long Type	Short Type	Objective
<b>Part-A</b>	<b>A/c for Non-Profit organisation &amp; Partnership (Compulsory)</b>				
Unit-I	Accounting for Not-for-Profit Organisations	10	x	2(2)	6(6)
Unit-II	Accounting for Partnership	5	x	1(2)	3(3)
Unit-III	Reconstitution of Partnership	20	1(5)	3(2)	9(9)
Unit-IV	Dissolution of Partnership Firm	25 <b>60</b>	1(5)	3(2)	14(14)
<b>Total</b>					
<b>Part-B</b>	<b>Company Accounts and Financial Statement Analysis</b>				
Unit-V	Accounting for Shares and Debenture Capital	12	1(5)	2(2)	3(3)
Unit-VI	Analysis of Financial Statements	8	x	1(2)	6(6)
Unit-VII	Statement of Changes in Financial Position	20 <b>40</b>	1(5)	3(2)	9(9)
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>4x5=20</b>	<b>15x2=30</b>	<b>50x1=50</b>